

तुरंत रिलीज के लिए

सी.यू.टी.आर.आई.सी. को ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के लिए कॅनेडा सरकार और एफ.सी.एम. से 175 हजार डॉलर का निवेश मिला

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (5 जुलाई, 2022) – आज, एम.पी. (MP) रूबी सहोता (Ruby Sahota) ने, मिनिस्टर ऑफ नैचुरल रिसोर्सिज, माननीय जोनाथन विल्किन्सन (Jonathan Wilkinson); हाल्टन रीजन काउंसलर और बोर्ड मेम्बर ऑफ द फेडरेशन ऑफ कॅनेडियन म्युनिसिपल्टीज (एफ.सी.एम.), रोरी निसन (Rory Nisan); रीजनल काउंसलर और ब्रैम्पटन के डिप्टी मेयर, मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), बर्लिंग्टन (Burlington) की मेयर मैरिएन मीड वार्ड (Marianne Meed Ward); और कॅनेडियन अर्बन ट्रांज़िट रिसर्च एंड इनोवेशन कॉन्सोर्टियम (Canadian Urban Transit Research and Innovation Consortium) (सी.यू.टी.आर.आई.सी.) के प्रेजिडेंट और सी.ई.ओ. की ओर से, एफ.सी.एम. (FCM) के ग्रीन म्युनिसिपल फंड (जी.एम.एफ.) (Green Municipal Fund) (GMF) के द्वारा ब्रैम्पटन में ट्रांज़िट निवेश की घोषणा की।

सी.यू.टी.आर.आई.सी. (CUTRIC) को, ग्रीनहाउस गैस निकालने को कम करने में और पब्लिक ट्रांज़िट के लिए भविष्य की राइडरशिप मांग को पूरा करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के कार्यनीति वाले प्रयासों में सहायता के लिए संभावना अध्ययन के प्रति, 175,000 डॉलर मिले हैं। अध्ययन का फोकस, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के रूट नेटवर्क पर जीरो टेलपाइप-निकासी वाली बसों (जेड.ई.बी.) का प्रयोग करने की संभावना तक पहुंचना है।

यह अध्ययन, सी.यू.टी.आर.आई.सी. के अंदरूनी तौर पर विकसित पूर्व सूचक मॉडलिंग टूल, RoutE.i™ का प्रयोग करते हुए किया जा रहा है। यह टूल, मौजूदा टेक्नोलॉजी के आधार पर जेड.ई.बी. (ZEBs) या एफ.सी.ई.बी. (FCEBs) को ग्रहण करने की संभावना और लाभ निर्धारित करने के लिए, संचालन संबंधी स्थितियों को शामिल करता है, जैसे रूट मैप्स, ट्रांज़िट शेड्यूल्स, मौसम और पैसेंजर-लोडिंग।

इलेक्ट्रिक जेड.ई.बी. बस फ्लीट में बदली करना, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन सिटी (Green City) बनाने की सिटी की प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। जेड.ई.बी. स्थिर ट्रांज़िट वाहन हैं, जो कम्युनिटी के लिए प्रभावी, शांत और क्लीन (प्रदूषण-मुक्त) यात्रा प्रदान करेंगे।

ट्रांज़िट बसों का इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रैम्पटन में पैदा होने वाली ग्रीनहाउस गैसों (जी.एच.जी.) को 2050 तक, 80 प्रतिशत तक कम करने के सिटी के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 133 डीजल-इलेक्ट्रिक हाईब्रिड ज़ूम (Züm) बसों का मौजूदा फ्लीट शामिल करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) ने, मई 2021 में पहली आठ बैटरी इलेक्ट्रिक जीरो निकासी वाली बसों और चार उच्च-पावर वाले ओवरहेड ओपोज़िशन चार्जर पेश किए थे। पूरे फ्लीट की जेड.ई.बी. में बदली करने से, अनुमान है कि प्रति बस, प्रति वर्ष लगभग 115

टन CO₂ की बचत होगी, जो वार्षिक तौर पर जी.एच.जी. (GHGs) का कुल 53,000 टन या सड़कों से लगभग 12,000 यात्री वाहनों (कई टन जी.एच.जी.) को हटाने के बराबर होगा।

एफ.सी.एम. के द्वारा संचालित जी.एम.एफ. (GMF) को, कैंनेडा सरकार की तरफ से एंडोमेंट के द्वारा फंड दिया जा रहा है। जी.एम.एफ., लोकल सरकारों को स्थिर पद्धतियों में तेजी से बदलने में मदद करता है। फंडिंग, संसाधनों और ट्रेनिंग का इसका बेजोड़ मिश्रण, म्युनिसिपल्टीज को वह टूल देता है, जिनकी जरूरत उन्हें, स्थिरता बनाने और ग्रीनहाउस गैस निकासियों को कम करने के लिए है।

लिंक

- [कैंनेडा और एफ.सी.एम. ब्रैम्पटन और बर्लिंगटन में कम-निकासियों वाले ट्रांजिट में निवेश कर रहे हैं \(Canada and FCM invest in low-emission transit in Brampton and Burlington\)](#)

हवाले

“कैंनेडा सरकार और एफ.सी.एम. का धन्यवाद कि उन्होंने सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में जीरो-निकासी वाली बसों के लिए, सी.यू.टी.आर.आई.सी. के संभावना अध्ययन में अपना निवेश किया। 175 हजार डॉलर का यह निवेश सीधे, ब्रैम्पटन और कैंनेडा में स्थिर ट्रांजिट के अगले लेवल में सहायता करेगा, क्योंकि ब्रैम्पटन ट्रांजिट अगले पांच वर्षों में ब्रैम्पटन की सड़कों के लिए, 450 तक जीरो-निकासी वाली बसें खरीद रही है। ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है और इकट्ठे मिलकर हम, हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे और हमारी कम्युनिटी में जीवन गुणवत्ता में सुधार करेंगे।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अपने साझेदारों और सहायकों कैंनेडा सरकार, एफ.सी.एम. और सी.यू.टी.आर.आई.सी. के साथ स्थिर, कम-कार्बन पब्लिक ट्रांजिट का विजन साझा करती है। जी.एम.एफ. फंडिंग के साथ, सी.यू.टी.आर.आई.सी. का संभावना अध्ययन, सिटी को जी.एच.जी. कम करने, लागत-फायदे और विश्लेषण शेड्यूल करने संबंधी दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करेगा, जीरो-टेलपाइप निकासी वाली बसों के प्रकार, हमारे फ्लीट को इलेक्ट्रिफाई करने के लिए ब्रैम्पटन ट्रांजिट नेटवर्क तथा अन्य महत्वपूर्ण कारकों में प्रत्येक रूट के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), डिप्टी मेयर, रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन पहलकदमियों में लीडर है और हम सी.यू.टी.आर.आई.सी. के द्वारा, कैंनेडा सरकार और एफ.सी.एम. की तरफ से, ब्रैम्पटन ट्रांजिट में 175 हजार डॉलर के निवेश का स्वागत करते हैं। जीरो-निकासी वाली बसें, ग्रीन सिटी के तौर पर ब्रैम्पटन हेतु टर्म ऑफ काउंसिल की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ब्रैम्पटन ट्रांजिट के लिए अधिक ग्रीन भविष्य में सहायता करने के लिए, हमारी टीम और हमारे साझेदारों का धन्यवाद।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“एफ.सी.एम. की बोर्ड मेम्बर होने के तौर पर, मुझे इस बारे में कई चर्चाओं का हिस्सा बनने का विशेषाधिकार मिला है कि कैनेडा में ट्रांज़िट एजेंसियों की सहायता कैसे की जाए, ताकि मौजूदा फ्लीट्स को जीरो-निकासी और कम कार्बन वाली टेक्नोलॉजीस में बदलने से जुड़ी, मुख्य चुनौतियों, अवसरों और समाधानों को पूरा किया जा सके। ब्रैम्पटन जीरो-निकासी वाले ट्रांज़िट में बदलाव का नेतृत्व कर रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी शामिल एजेंसियां और सरकार के महकमे, अधिक ग्रीन ट्रांज़िट नेटवर्क पेश करने के लिए इकट्ठे मिलकर काम करें।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; बोर्ड मेम्बर, एफ.सी.एम.*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सबके लिए अच्छी तरह जुड़ा हुआ, स्थिर और ऊर्जा-प्रभावी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और अधिक ग्रीन सिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कैनेडा सरकार, एफ.सी.एम. और सी.यू.टी.आर.आई.सी. के द्वारा हिमायत के लिए उनका धन्यवाद। हम ब्रैम्पटन में निवेश लाने का लिए हमारे स्टैकहोल्डर्स के साथ काम करना जारी रखेंगे।”

- *पॉल मॉरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, स्थिर ट्रांज़िट में लीडर है और जीरो-निकासी वाली बसें, हमारे फ्लीट को इलेक्ट्रिफाई करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं। हम हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट में निवेश लाने के लिए, सी.यू.टी.आर.आई.सी. और भिन्न स्टैकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे साझेदारों के द्वारा हिमायत के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं।”

- *एलेक्स मिलोजेविक (Alex Milojevic), जनरल मैनेजर, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“2015 में मेरे चुनाव के बाद, मैंने हमारी कम-निकासी वाले ट्रांज़िट बदली में, सी.यू.टी.आर.आई.सी. के द्वारा निभाई गई भूमिका को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। यह फंडिंग वितरण, सी.यू.टी.आर.आई.सी. के साथ साझेदारी में, उन कई में से केवल एक है, जो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन प्राप्त कर रही है, जब हम हमारे भविष्य को इलेक्ट्रिफाई कर रहे हैं, प्रदूषण कम कर रहे हैं और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं – जो हमें नेट-जीरो निकासियों के एक कदम पास ला रहा है।”

- *रूबी सहोता (Ruby Sahota), ब्रैम्पटन नॉर्थ के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट*

“ब्रैम्पटन और बर्लिंग्टन, ओन्टैरियो में क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए फंडिंग की आज की घोषणा, हमारी सरकार की प्राथमिकता के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रदूषण को कम करने, हमारी कम्युनिटीज में वृद्धि करने और क्लीन टेक्नोलॉजीस में हमारे इनोवेशन को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। कैनेडा सरकार को इस क्षेत्र में सी.यू.टी.आर.आई.सी. के लीडरशिप की हिमायत करके बहुत खुशी हो रही है। मैं उनकी लीडरशिप के लिए उन्हें बधाई देता हूँ।”

- *माननीय जोनाथन विल्किन्सन (Jonathan Wilkinson), मिनिस्टर ऑफ नैचुरल रिसोर्सिज*

“यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जलवायु संबंधी लड़ाई में सभी शामिल हों। कैनेडा की म्युनिसिपल्टीज, इन्वेस्टिव समाधानों के साथ अपनी भूमिका निभा रही है, जो नौकरियां और जलवायु संबंधी स्थिरता पैदा करते हैं। कैनेडियन कम्युनिटीज में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, हमारा हवा को अधिक क्लीन, हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक मज़बूत बनाएगा और हमें नेट-जीरो भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा।”

- *माननीय स्टीवन गिलबील्ट (Steven Guilbeault), मिनिस्टर ऑफ एन्वायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज*

“आज के लोग अधिकतर शहरों में रहते हैं। शहरों को जलवायु संबंधी बदलाव पर ध्यान देने और जलवायु संबंधी बदली हुई दुनिया में हमारे भविष्य के लिए योजना बनाने का नेतृत्व करना चाहिए। सी.यू.टी.आर.आई.सी. को ब्रैम्पटन और बर्लिंगटन जैसे शहरों के साथ काम करने पर गर्व है। ये शहर, जलवायु संबंधी कार्रवाई के प्रति इनोवेटिव सोच के बढ़ते हुए केंद्र हैं। अब समय आ गया है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम-कार्बन गतिशीलता लैंडस्केप को बदला जाए।”

- जोसिपा पेट्रुनिक (Josipa Petrunic), प्रेजिडेंट एंड सी.ई.ओ. ऑफ सी.यू.टी.आर.आई.सी.

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca

नैचुरल रिसोर्सिज कैनेडा

मीडिया रिलेशनस

343-292-6100

media@nrcan-rncan.gc.ca

हमें Twitter पर फॉलो करें: @NRCan (<http://twitter.com/nrcan>)

कीआन नेम्भर्ड (Keean Nembhard)

प्रेस सेक्रेटरी

ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ नैचुरल रिसोर्सिज

613-323-7892

keean.nembhard@nrcan-rncan.gc.ca

एफ.सी.एम. मीडिया रिलेशनस

613-907-6395

media@fcm.ca